

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2014—फाल्गुन 27, शक 1935

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2014

क्र. एफ. 6-1-2014-सात-3.—राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 14 मार्च, 2014 के दौरान हुई व्यापक ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में दर्शाये जिलों को आपदा से प्रभावित अधिसूचित करती है:—

अनुसूची

क्र. (1)	जिला (2)	क्र. (1)	जिला (2)
1.	भिण्ड	14.	रतलाम
2.	श्योपुर	15.	उज्जैन
3.	मुरैना	16.	धार
4.	ग्वालियर	17.	बड़वानी
5.	शिवपुरी	18.	बुरहानपुर
6.	गुना	19.	खण्डवा
7.	अशोकनगर	20.	इन्दौर
8.	दतिया	21.	झाबुआ
9.	शाजापुर	22.	खरगौन
10.	आगर मालवा	23.	सीहोर
11.	मंदसौर	24.	रायसेन
12.	नीमच	25.	राजगढ़
13.	देवास	26.	विदिशा

क्र. (1)	जिला (2)	क्र. (1)	जिला (2)
27.	भोपाल	39.	छिंदवाड़ा
28.	बैतूल	40.	मण्डला
29.	होशंगाबाद	41.	बालाघाट
30.	हरदा	42.	सिवनी
31.	सागर	43.	रीवा
32.	दमोह	44.	सतना
33.	पन्ना	45.	सिंगरौली
34.	छतरपुर	46.	डिण्डोरी
35.	टीकमगढ़	47.	उमरिया
36.	जबलपुर	48.	अनूपपुर
37.	कटनी	49.	शहडोल
38.	नरसिंहपुर	कुल 49 जिले	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2014

क्र. एफ. 6-1-2014-सात-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र. एफ. 6-1-2014-सात-3 दिनांक 18 मार्च, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 18th March, 2014

No. F. 6-1-2014-VII-3.—The State Government, hereby, notifies the districts affected by the calamity of widespread hailstorms and unseasonal rains during the period 1st January, 2014 to 14th March, 2014 in the State, shown in column (2) of the Schedule given below:—

SCHEDULE

No. (1)	District (2)	No. (1)	District (2)
1.	Bhind	11.	Mandsaur
2.	Seopur	12.	Neemuch
3.	Morena	13.	Dewas
4.	Gwalior	14.	Ratlam
5.	Shivpuri	15.	Ujjain
6.	Guna	16.	Dhar
7.	Ashoknagar	17.	Badwani
8.	Datia	18.	Burhanpur
9.	Shajapur	19.	Khandwa
10.	Agar-Malwa	20.	Indore

No. (1)	District (2)	No. (1)	District (2)
21.	Jhabua	36.	Jabalpur
22.	Khargone	37.	Katni
23.	Sehore	38.	Narsinghpur
24.	Raisen	39.	Chhindwara
25.	Rajgarh	40.	Mandla
26.	Vidisha	41.	Balaghat
27.	Bhopal	42.	Seoni
28.	Betul	43.	Rewa
29.	Hoshangabad	44.	Satna
30.	Harda	45.	Singrouli
31.	Sagar	46.	Dindori
32.	Damoh	47.	Umaria
33.	Panna	48.	Anuppur
34.	Chhatarpur	49.	Shahdol
35.	Tikamgarh		
Total 49 District			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal. Secy.